



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022

आषाढ़ 31, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2051/9-1-2022-64 टी0ए0-20

लखनऊ, 22 जुलाई, 2022

अधिसूचना

प0आ0-348

चूँकि उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार नगर पंचायत तरकुलवा, जिला देवरिया का गठन करने हेतु नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्र को संक्रमणशील क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की अधिसूचना जारी करने हेतु आपत्तियाँ और सुझाव आमंत्रित करने की दृष्टि से सरकारी अधिसूचना संख्या 2389/9-1-2020-64 टी0ए0-20, दिनांक 12 दिसम्बर, 2020 जारी करके तद्दिनांक को गजट में प्रकाशित की गयी थी;

और, चूँकि, उक्त अधिसूचना के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों और सुझावों का निस्तारण शासनादेश संख्या 1266/9-1-2022-64 टी0-20, दिनांक 9 जून, 2022 द्वारा कर दिया गया है;

अतएव, अब, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल क्षेत्र की जनसंख्या, उनमें जनसंख्या घनत्व, स्थानीय प्रशासन के लिए जनित राजस्व, कृष्येतर कार्यकलापों में नियोजन के प्रतिशत और आर्थिक महत्व को ध्यान में रखते हुए विनिर्दिष्ट करती हैं कि स्थानीय क्षेत्र, जिसकी सीमायें नीचे अनुसूची में दी गयी हैं, भारत का संविधान के भाग नौ-क के प्रयोजनार्थ संक्रमणशील क्षेत्र होगा और

उक्त संक्रमणशील क्षेत्र के लिए एक नगर पंचायत का गठन किया जायेगा, जिसे नगर पंचायत तरकुलवा, जिला देवरिया के रूप में जाना जायेगा।

अनुसूची-1
नगर पंचायत तरकुलवा, जिला देवरिया का प्रादेशिक क्षेत्र

दिशा	सम्मिलित ग्राम व गाटा संख्याएं
पूर्व	1-कनकपुरा-1 से 1523 तक
पश्चिम	2-तरकुलवा-1 से 1835 तक 3-जमुनी-1 से 1171 तक 4-परसौनी-1 से 455 तक
उत्तर	5-अल्खीछापर उर्फ लक्ष्मीपुर-1 से 330 तक 6-बालपुर श्रीनगर-1 से 452
दक्षिण	7-सिरसिरा पट्टी हुसैन-01 से 533 तक

आज्ञा से,
अमृत अभिजात,
प्रमुख सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2051/IX-1-2022-64T.A.-20, dated July 22, 2022:

No. 2051/IX-1-2022-64T.A.-20

Dated Lucknow, July 22, 2022

WHEREAS notification no. 2389/IX-1-2020-64T.A.-20, dated December 12, 2020 was issued and published in the *Gazette* with a view to invite objections and suggestions for issuance of notification for specifying the area mentioned in the Schedule below transitional area for constituting Nagar Panchayat Tarakulwa in District Deoria as required under sub-section (1) of section 4 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916);

AND, WHEREAS, the objections and suggestions received in pursuance of said notification were disposed of *vide* Government order no. 1266/IX-1-2022-64T.-20, dated June 9, 2022;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no. II of 1916), the Governor having regard to the population of the area, the density of population therein, the revenue generated for the local administration, the percentage of employment in non-agricultural activities and the economic importance is pleased to specify that the local area the limits of which are given in the Schedule below, shall be a transitional area for the purpose of Part IX-A of the Constitution of India and there shall be constituted for the said transitional area a Nagar Panchayat to be known as Nagar Panchayat Tarakulwa in district Deoria.

SCHEDULE-1

Territorial area of Nagar Panchayat Tarakulwa, district Deoria

Direction	Included Village and their Gata Nos.
East	1-Kanakpura- 1 to 1523
West	2-Tarakulwa 1 to 1835 3-Jamuni- 1 to 1171 4- Jamuni- 1 to 455
North	5-Alkhichhapar <i>urf</i> Laxmipur - 1 to 330 6-Balpur Shrinagar- 1 to 452
South	7- Sirsiya patti Husain- 1 to 533

By order,
AMRIT ABHIJAT,
Pramukh Sachiv.